

# अमृत सरोवर मिशन

देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 अप्रैल 2022 को एक नए मिशन अमृत सरोवर का शुभारंभ किया।

हाल ही में गाजियाबाद में 75 तालाब केंद्र की 'अमृत सरोवर' योजना के तहत पुनरुद्धार के लिए चिह्नित किया गया है जिसके कारण एक बार फिर से अमृत सरोवर मिशन चर्चा का कारण बना हुआ है इस लेख में आपको से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गयी है जो आपके आगामी राज्य सेवा परीक्षा के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण होगी।

## अमृत सरोवर मिशन क्या है:

- 'मिशन अमृत सरोवर' का उद्देश्य देश के प्रत्येक जिले में कम से कम 75 तालाबों का "निर्माण या विकास" करना है।
- अमृत सरोवर मिशन के हिस्से के रूप में, प्रत्येक तालाब में कम से कम 1 एकड़ (0.4 हेक्टेयर) का जल-क्षेत्र होगा जिसमें लगभग 10,000 घन मीटर तक की जल धारण क्षमता होगी।
- अमृत सरोवर मिशन में शामिल लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी ग्रामीण जिलों को, हर जिले में कम से कम 75 तालाब, कुल मिलकर देश भर में लगभग 50,000 अमृत सरोवरों विकसित करने का निर्देश दिया गया है।

## अमृत सरोवर मिशन में शामिल मंत्रालय:

- अमृत सरोवर मिशन पूरे सरकारी दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया है जिसमें 6 मंत्रालय या विभाग शामिल हैं-
  1. ग्रामीण विकास विभाग,
  2. भूमि संसाधन विभाग,
  3. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग,
  4. जल संसाधन विभाग,
  5. पंचायती राज मंत्रालय,
  6. वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।
- भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) को मिशन के लिए तकनीकी भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।



### अमृत सरोवर मिशन का अन्य योजनाओं के साथ अभिसरण:

मिशन राज्यों और जिलों के माध्यम से महात्मा गांधी नरेगा, 15 वें वित्त आयोग अनुदान, PMKSY उप योजनाओं जैसे वाटरशेड विकास घटक, हर खेत को पानी के अलावा राज्यों की अपनी योजनाओं पर फिर से ध्यान केंद्रित करके उनको एक साथ लाने का काम करता है।

### अमृत सरोवर मिशन का कार्यान्वयन:

अमृत सरोवर के स्थल को विशेष ग्राम सभा द्वारा अनुमोदित किया जाएगा, जिसे पंचायत पार्टी निधि के रूप में जाना जायेगा अमृत सरोवर के विकास की निगरानी करेगा।

### अमृत सरोवर मिशन में शामिल जन भागीदारी:

- अमृत सरोवर मिशन इन प्रयासों को पूरा करने के लिए नागरिकों और गैर-सरकारी संसाधनों को जुटाने को प्रोत्साहित करेगा। अमृत सरोवर मिशन समुदाय की सामूहिक भावना को जागृत करने के उद्देश्य से शुरू की गयी एक पहल है।
- मिशन में लोगों की भागीदारी केंद्र बिंदु है।
- स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों, स्थानीय स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार के सदस्यों, शहीदों के परिवार के सदस्यों, पद्म पुरस्कार विजेता और स्थानीय क्षेत्र के नागरिकों को जहां अमृत सरोवर का निर्माण किया जाना है, सभी चरणों में शामिल किया जाएगा।
- 15 अगस्त को प्रत्येक अमृत सरोवर स्थल पर राष्ट्रीय ध्वजारोहण का आयोजन किया जाएगा।

